

Central University of Rajasthan

(A Central University established by an Act of Parliament)
Bandarsindri, NH-8, Ajmer (Rajasthan), 01463-238755



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, बांदरसिंदरी, जिला अजमेर (राज.)
Tel: 01463-238755, Website: www.curaj.ac.in



Advt.: R/F.145/2023/4722

वॉक-इन-इंटरव्यू

23-02-2023

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सहायक (लेखा) के पद पर संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। उक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए अथवा रेगुलर नॉन-टीचिंग पदों के भरने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

इच्छुक योग्य उम्मीदवार सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। पदों, योग्यता, साक्षात्कार अनुसूची, आवेदन पत्र आदि के बारे में जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in पर देखें।

The eligible candidates are invited for post of **Assistant (Account)** in the Central University of Rajasthan. The appointment on the post will be made on purely on contractual basis for a period of one year or till the regular non-teaching positions are filled, whichever is earlier..

Interested eligible candidates should report at the University for walk-in-interview on respective date and time with duly filled Application Form in the prescribed format alongwith all relevant documents. **For information regarding Post, Interview Schedule, Application Form etc.**, please visit: www.curaj.ac.in.

कुलसचिव

Details of Post, Schedule of Walk-in-Interview for the post of Assistant (Account) – Contract Basis

Post	Department	No. of post	Minimum Qualification	Date, time and Venue of Interview
Assistant (Account)	Finance & Account Section	01-UR	<p>➤ Chartered Accountant</p> <p>Desirable:</p> <p>➤ Two year working experience (besides articleship) with working knowledge of Tally ERP Software & Taxation matters.</p>	13-03-2023 at 11 AM, Finance & Account Section, Admin. Block, CURAJ

Terms & Conditions

(Ref.: Advertisement No. CURAJ/R/F.145/2023/4722 dated 23.02.2023)

- The Assistant (Account) shall be eligible for consolidated monthly salary of Rs. 42,200/- per month only. Salary will be negotiable in case of highly experienced and deserving candidates.
- The candidate will not be entitled to any other benefits, which are admissible to the regular employees of the Central University of Rajasthan.
- This engagement will not vest any right to claim for regular appointment in the University or for continued services in the University.
- The University reserves the right to terminate this engagement any time even before the stipulated period in case of unsatisfactory performance, misconduct or any other administrative reasons/ compulsions.
- In case of any dispute/ ambiguity that may occur in the process of selection, the decision of the University shall be final.
- The candidate will have to perform such other duties and work as assigned by the Central University of Rajasthan from time to time.
- On expiry of the period of this engagement as per the offer of engagement, the candidate will not be required to turn up for duties unless further extension is given by the University.
- If it is detected by the Central University of Rajasthan during the period of engagement that academic credentials/age/experience are without standing, fake or substandard or your documents are false, fabricated, manufactured, tampered with or the candidate is not eligible for the post as per the prescribed educational qualifications and experience etc. which could not be detected at the time of selection due to whatever circumstances, the engagement shall be terminated forthwith and action will be initiated against the candidate as per rules.
- In case of any dispute/ suit or legal proceeding arises against the University, the Jurisdiction shall be restricted to the Rajasthan High Court Bench Jaipur.

Registrar
Central University of Rajasthan